



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण  
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (I)  
PART II—Section 3—Sub-section (I)

प्राधिकार से प्रकाशित  
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 494] नई दिल्ली, बुधवार, दिसम्बर 29, 1983/पौष 8, 1905  
No. 494] NEW DELHI, THURSDAY, DEC. 29, 1983/PAUSA 8, 1905

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में  
रखा जा सके

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate  
compilation

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 29 दिसम्बर, 1983

सं. 330/83-सीमाशुल्क

मा. का. नि. 928(अ):—केंद्रीय सरकार, सीमा-शुल्क अधिनियम, 1962  
(1962 का 32) की धारा 25 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग  
करते हुए, अपना यह समाधान हो जाने पर कि लोकहित में ऐसा करना आवश्यक  
है, भारत सरकार के वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना सं. 23/83-  
सीमा-शुल्क, तारीख 14 फरवरी, 1983 में निम्नलिखित संशोधन करती है,  
अर्थात् :—

उक्त अधिसूचना में,—

- (1) पैरा 1 में, “उस पर उद्ग्रहणीय सम्पूर्ण सीमा-शुल्क से, जो उक्त पहली अनुसूची में विनिर्दिष्ट किया गया है” शब्दों के स्थान पर “उस पर उद्ग्रहणीय सीमा-शुल्क के उन भाग से जो उक्त पहली अनुसूची में विनिर्दिष्ट किया गया है और जो मूल्य के 20 प्रतिशत की दर पर संगणित रकम से अधिक है,” शब्द रखे जाएंगे।
- (2) पैरा 2 में, “31 दिसम्बर, 1983” अंकों और शब्दों के स्थान पर “30 जून, 1984” अंक और शब्द रखे जाएंगे।

[फा. सं. 355/227/83-सीमा-शुल्क 1]

एन. एसिधरन, अवर सचिव

## MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

### NOTIFICATION

New Delhi, the 29th December, 1983

NO. 330/83-CUSTOMS

G.S.R. 928(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 25 of the Customs Act, 1962 (52 of 1962), the Central Government, being satisfied that it is necessary in the public interest so to do, hereby makes the following amendments in the notification of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue) No. 23/83-Customs dated the 14th February, 1983, namely :—

In the said notification, —

- (i) in paragraph 1, for the words “from the whole of the duty of customs leviable thereon which is specified in the said First Schedule”, the words “from so much of that portion of the duty of customs leviable thereon which is specified in the said First Schedule as is in excess of the amount calculated at the rate of 20 per cent ad valorem” shall be substituted;
- (ii) in paragraph 2, for the figures, letters and words “31st day of December, 1983”, the figures, letters and words “30th day of June, 1984” shall be substituted.

[F. No. 355/227/83-Cus. I]

N. SASIDHARAN, Under Secy.